



Date: 27/08/2022

To,
The Listing Compliance Department,
BSE Limited,
P. J. Tower, Dalal Street,
Mumbai – 400001
Scrip Code: 534809

To,
The Listing Compliance Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400051
Symbol: PCJEWELLER

Sub.: Newspaper publications

Dear Sir / Ma'am,

Please find enclosed herewith the publications made by the Company on August 27, 2022 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspapers, titled as "INFORMATION REGARDING THE 17TH ANNUAL GENERAL MEETING", in compliance with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs.

Kindly take the same on record.

Thanking you,
For PC Jeweller Limited

For PC Jeweller Limited

(SANJEEV BHATIA)
Auth. Signatory
Chief Financial Officer

Encl.: As above

PC Jeweller Limited

REGD. & CORPORATE OFF: C - 54, PREET VIHAR, VIKAS MARG, DELHI - 110 092 PH: 011 - 49714971 FAX : 011 - 49714972

info@pcjeweller.com • www.pcjeweller.com • CIN: L36911DL2005PLC134929

EICHER MOTORS LIMITED

Regd. Office: 3rd Floor, Select Citywalk,
A-3 District City Centre, Saket New Delhi - 110017

**PUBLIC NOTICE FOR ISSUE OF
DUPLICATE SHARE CERTIFICATES**

Notice is hereby given that Share Certificate Folio No.0053003 registered in the name of **ABDUL RASHEED FAZAL** have been lost / misplaced. **Mr. Nasser Fazal** has applied to the company for issue of duplicate certificate.

Any person who has a valid claim on the below said Shares

and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

For Hemisphere Properties India Limited

Sd/-

Lubna

(Company Secretary & Compliance Officer)

Date: 26.08.2022

Place: Delhi

**PC Jeweller Limited**

Regd. Off.: C-54, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi-110092
Phone: 011-49714971, Website: www.pcjeweller.com
Fax: 011-49714972, E-Mail: info@pcjeweller.com
Corporate Identity Number: L36911DL2005PLC134929

INFORMATION REGARDING THE 17TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting ("AGM") of PC Jeweller Limited (the "Company") will be held on Friday, September 30, 2022 at 1:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with General Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 (in continuation to the circulars issued earlier in this regard) issued by Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as "MCA Circulars") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to transact the business specified in the 17th AGM Notice ("AGM Notice").

Pursuant to MCA Circulars and SEBI Circular SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, AGM Notice along with Annual Report 2021-22 will be sent through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with Depository Participants / Company / Registrar & Transfer Agent i.e. KFin Technologies Limited ("KFin"). AGM Notice and Annual Report will also be available on the Company's website www.pcjeweller.com, websites of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on the website of KFin at <https://evoting.kfintech.com>.

Members will be able to cast their vote electronically on the business specified in AGM Notice either during remote e-voting period or at the AGM. If your e-mail address is registered with Depository Participants / Company / Registrar & Transfer Agent, the login details for remote e-voting will be sent on your registered e-mail address. Please note that same login details are required for participating in the AGM through VC / OAVM and vote on the resolutions at the AGM. The instructions for e-voting and attending the AGM through VC / OAVM will be provided in AGM Notice.

Members, who have not yet registered their e-mail addresses and updated their bank account details, are requested to do the same by following the procedure given below:

- Members holding shares in demat form can register their e-mail address and update bank account details by contacting their respective Depository Participant(s) and following the procedure advised by them.
- Members holding shares in physical form can send a request to KFin at the e-mail address - inward.ris@kfintech.com along with the scanned copy of signed request letter mentioning their folio number, name and address, scanned copy of share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card and address proof viz. Aadhar Card, Driving License, Passport etc., for registering their e-mail address. Additional details like name and branch of the bank, bank account type, bank account number, 9 digit MICR code, 11 digits IFSC code and scanned copy of cancelled cheque will be required for updating the bank account details.

Members can also register their e-mail address, for the limited purpose of receiving AGM Notice and Annual Report 2021-22 in electronic mode, through the link <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx> provided by KFin.

For PC Jeweller Limited

Sd/-

(VIJAY PANWAR)

Company Secretary

Place: Delhi
Date: August 26, 2022

**MADRAS FERTILIZERS**

(A Government of India

CIN - L32201 TN1966

Regd. Office : Manali, Chennai

Tel No.25942281/25945489/25945203 Web

email: cs@madrasfert.co.in / co

NOTICE OF THE 56TH ANNUAL GENERAL MEETING - SEPTEMBER

NOTICE is hereby given that the 56th Annual General Meeting (AGM) of the Wednesday, September 21, 2022 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing only to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM. In accordance with the Ministry of Corporate Affairs dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, May 05, 2022 (collectively called "MCA Circulars") and the Circulars dated May 1

passbook to RTA of the Company at their Registered Address.

Members holding shares in dematerialised form are requested to get their bank account details updated with respective DP, with whom they maintain their demat accounts.

Remote e-Voting:

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting through electronic means.

The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the AGM.

a. The remote e-Voting facility would be available during the following period:

Commencement of remote Voting	From 09:00 AM (IST) on September 21, 2022
End of remote e-Voting	Upto 05:00 PM (IST) on September 21, 2022

The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter electronically beyond the said date and time;

b. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up capital of the Company as on **Wednesday, September 14, 2022 ('Cut-Off Date')**. The facility of remote e-Voting shall be available to the Members attending the Meeting, who have not already exercised their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before / during the Meeting.

c. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company on or after the Cut-Off Date, may obtain the login-id and password for remote e-Voting by sending an email to evoting@nsdl.co.in or may contact on toll free number 1800-222-990, as provided in the AGM Notice. Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the Meeting may not be entitled to vote again.

Registration of e-mail addresses:

Members who have not yet registered or updated their email addresses are requested to register their depository participants or send their consent at investor@princepipes.com at a valid email address for registration. For members holding shares in Physical mode, the name of the shareholder by email to investor@princepipes.com.

In case of any queries / grievances connected with remote e-Voting, you may refer to the 'Downloads' Section of www.evotingindia.com or contact Mr. Pallavi Mhatre, Manager from NSDL, Trade World, 'A' Vigneshwari Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 at evoting@nsdl.co.in or amitv@nsdl.co.in or call on toll free no.: 1800-222-990.

The Members who require technical assistance before/during the Meeting to access the e-Voting system may contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL at amitv@nsdl.co.in or at Tel./ Mobile no.: +91 98204 4360/4545/4738 or at the toll free no.: 1800-222-990.

Book Closure:

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Act and the Rules framed thereunder, the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 21, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 35th AGM and for payment of Final Dividend for the Financial year ended 2021-22. Further, the Company has fixed Wednesday, September 14, 2022 as the date for payment of Final Dividend for the Financial year ended 2021-22.

For and on behalf of

Place: Mumbai
Date: August 26, 2022

SRI DURGA BANSAL FERTILIZER LIMITED

CIN: U51497UP1985PLC007471
Regd Office: Village Mangari 31 Km Stonesultanpur Road Faizabad Uttar- Pradesh
Email ID: kribansal_9@yahoo.com




फ्रीनिक्स एडारसी प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: इवी मॉडर, दानी कॉन्वेंट पार्क, 158,
31 एच टी रोड, कलिंगा, खोस्ताकुन (पूर्व), मुंबई - 400098

कब्जा सूचना

पंजीकृत कार्यालय: इवी मॉडर, दानी कॉन्वेंट पार्क, 158, 31 एच टी रोड, कलिंगा, खोस्ताकुन (पूर्व), मुंबई - 400098



अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

निगमित पहचान संख्या: L45101DL1967PLC004759
पंजीकृत कार्यालय: 115, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001
मोबाइल: 91.9871053418, दूरभाष: 011.23363560, 68302268.72
वेबसाइट: www.ansalapi.com; ई-मेल: shareholderservice@ansalapi.com

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सदस्यों (अंशधारकों) की 55वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन बुधवार 28 सितंबर 2022 को मध्याह्न 11.30 बजे (भा.मा.स.) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दूर्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से किया जाएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) परिपत्रों दिनांकित 13 मई 2022 तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्गत परिपत्र सं. 02/2022, 21/2021, 10/2021, 39/2020, 33/2020, 22/2020, 20/2020, 17/2020, 14/2020 एवं 14/2020 क्रमशः दिनांकित 05 मई 2022, 14 दिसंबर 2021, 08 दिसंबर 2021, 23 जून 2021, 31 दिसंबर 2020, 28 सितंबर 2020, 15 जून 2020, 05 मई 2020, 13 अप्रैल 2020 एवं 08 अप्रैल 2020 (सामूहिक रूप में "एमसीए परिपत्रों" के रूप में संदर्भित), कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों और संशोधितानुसार सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 ("सूचीकरण विनियमावली") के अनुसार, कंपनी की एजीएम का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जाएगा तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन के सध 55वीं एजीएम के आयोजन की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन तथा एजीएम की सूचना, कंपनी की वेबसाइट www.ansalapi.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। यह प्रलेख, कंपनी के रजिस्ट्रार एवं अंश अंतरण अभिकर्ता अर्थात् लिंक इंटाइम इंडिया प्रा. लि. ("एलआईआईपीएल" अथवा "आरटीए") की वेबसाइट <https://instavote.linkintime.co.in> पर भी उपलब्ध होंगे। कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कोई लाभांश संस्तुत नहीं किया है।

एजीएम की सूचना और वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22 तथा अन्य प्रलेख इत्यादि प्राप्त करने के लिए - ईमेल पता पंजीकृत करने की प्रविधि

1. भौतिक प्रारूप में अंश धारण करनेवाले तथा कंपनी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतनीकृत नहीं करा पाए सदस्यों से अनुरोध है कि वे shareholderservice@ansalapi.com पर अथवा लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को shamwant.kushwah@linkintime.co.in पर फॉलियो नंबर के विवरणों और पैन कार्ड की एक स्वप्रमाणित प्रतियों को संलग्न करके कंपनी को पत्र लिखकर ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतनीकृत कराएं।
2. अभौतिक प्रारूप में अंश धारण करनेवाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे सुसंगत डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अद्यतनीकृत करें।

सेबी के परिपत्र दिनांकित 03 नवंबर 2021 के अनुसार, भौतिक प्रारूप में अंश धारण करनेवाले समस्त सदस्यों के लिए यह अनिवार्य रूप में आवश्यक है कि वे पैन, केवाईसी विवरण (पता, साक्ष्य, बैंक विवरण, ई-मेल पता एवं मोबाइल नंबर) तथा आरटीए के पास समस्त ग्राह्य फॉलियोज हेतु नामांकन प्रस्तुत करें। जिन फॉलियोज में उपरोक्त में से कोई प्रलेख/विवरण 01 अप्रैल 2023 को अथवा इसके उपरांत उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उन्हें आरटीए द्वारा रोक दिया जाएगा।

सदस्यों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालना कंपनी के ऐसे सदस्य जो भौतिक प्रारूप में अंश धारण किए हुए हैं अथवा जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डालने (एलआईआईपीएल के ई-वोटिंग सिस्टम <https://instavote.linkintime.co.in> पर लॉगिन करके) के लिए, 55वीं एजीएम की सूचना की टिप्पणियों में संवर्णित अनुदेशों का पालन करके, लॉगिन आईडी एवं पास पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना तथा विशिष्ट रूप में एजीएम से जुड़ने के अनुदेशों, रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रविधि को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

दिनांक: 26 अगस्त 2022
स्थान: नई दिल्ली
कृते अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
हस्ता. -
अबुल साफी
महाप्रबंधक (निगमित कार्य) तथा कंपनी सचिव
सदस्यता नं.: एफसीएस 7135

जाता है कि

रि अन्य सभी (सीए), भारत में निर्धारित का पंजीकृत 80, ओखला जाएगा। प्रतियां त्रि को पहले ही (रजिस्ट्रार/ तहत सभी चुकी हैं। तैत कमपनी भी (सूचीयन नियम 44 के प्रलेख करा ार्यों को उस षेक बंसल, ादित कराने 5 अर्थात 14 ने व्यवसायों हैं। बांद शेयर अर्थत 14 श्री जे.के. 3 3/07, 12641234, आईडी तथा ए नेशनल आप अपना प्रयोग कर गारम्भ होगी ट ई-वोटिंग ही जाएगी। रहेगी तथा रहे हैं और ने अधिकार बनाये गये रिमोट ई-ने के लिए सभा की वेबसाइट **Annual%** वेबसाइट इ, यथा ए उपलब्ध uestions 990 पर स्याओं के ट्स लि. 5, दूरभाष म्पर्क कर ा सभा के ा शामिल) लिमिटेड नी सचिव

सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति भाग 135.30 वर्ग मी., पुराना नं. 226 एवं 226/1-2, नया नं. 235 एवं 235/1-2, राधा निवास, मोरमा मंडी बाजार, वृन्दावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश-281121 का सभी भाग तथा हिस्सा: चौहद्दी: उत्तर: रोड, दक्षिण: भूमि एवं कच्चा, गोविन्द देव पट्टेदार देना, पूर्व: ठाकुर गोविन्द देव पट्टेदार परसौतम, पश्चिम: 3 फीट चौड़ी गली, उप रजिस्ट्रार मथुरा में पंजीकृत विक्री प्रलेख बुक नं.1, वॉल नं. 667, पेज नं. 55-92, मैनुअल नं. 5981 तिथि 28.8.2002 के माध्यम से स्वामित्व

यदि कर्जदार उपर्युक्त के अनुसार ईएआरसी को भुगतान करने में असफल रहते हैं तो ईएआरसी लागतों तथा परिणामों के प्रति कथित कर्जदार(ों) के सम्पूर्ण जोखिम पर अधिनियम की धारा 13(4) तथा प्रयोक्त्र नियमों के तहत उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। कर्जदारों को उपर्युक्त आस्तियों को विक्रय, पट्टे अथवा अन्य किसी माध्यम से ईएआरसी को पूर्व लिखित अनुमति के बिना हस्ता-तरित करने से निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों अथवा इसके तहत निर्मित नियमों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन में सहयोग करता है वह अधिनियम के तहत प्रावधानित के अनुसार जेल जाने तथा/अथवा जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

तिथि : 27.8.2022
स्थान : लखनऊ

ई/- अधिकृत प्राधिकारी
कृते इलेक्ट्रॉनिक एसेट रिकॉर्डकरण कम्पनी लिमिटेड

Edelweiss
Trust, Credit, Loans, Finance

पीसी ज्वैलर लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: सी-64, प्रीत विहार, विकास मार्ग, दिल्ली-110092
फोन: 011-49714971, वेबसाइट: www.pcejeweller.com
फैक्स: 011-49714972, ई-मेल: info@pcejeweller.com
निगमित पहचान संख्या: L36911DL2005PLC134929

17वीं वार्षिक सामान्य बैठक की जानकारी

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, सहपठित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022 (इस संबंध में पूर्व में जारी परिपत्रों के क्रम में) (बाद में "एमसीए परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) एवं सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में, पीसी ज्वैलर लिमिटेड ("कंपनी") की 17वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") शुकवार, 30 सितम्बर, 2022 दोपहर 1:00 बजे (भा.मा.स.) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीडिया ("ओएवीएम") के माध्यम से, 17वीं एजीएम की सूचना ("एजीएम सूचना") में सम्पादित कामकाजों को करने के लिए आयोजित की जाएगी।

एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 के अनुसार, एजीएम सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट - कैफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("कैफिन") के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.pcejeweller.com, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com और कैफिन की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> पर भी उपलब्ध होगी।

सदस्य एजीएम सूचना में निर्दिष्ट किए गए कामकाज पर रिमोट ई-मतदान अवधि के दौरान या एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। यदि आपका ई-मेल पता डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट - कैफिन के साथ पंजीकृत है, तो रिमोट ई-मतदान के लिए लॉगिन विवरण आपके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजे जाएंगे। कृपया ध्यान दें कि एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने और एजीएम के दौरान प्रस्तावों पर वोट के लिए एक समान लॉगिन विवरण की आवश्यकता होती है। ई-मतदान और एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित होने के निर्देश एजीएम सूचना में दिए जाएंगे।

1. डिमिट प्रारूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करके और उनके द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया का पालन करके ई-मेल पता और बैंक खाते के विवरण को अपडेट कर सकते हैं।
2. भौतिक प्रारूप में शेयर रखने वाले सदस्य कैफिन के ईमेल पते inward.ris@kfintech.com पर अनुरोध के साथ हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र की स्कैन प्रति जिसमें की उनका फॉलियो नंबर, नाम एवं पता हो, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति (सामने और पीछे से), पैन कार्ड एवं पते का-सबूत जैसे कि आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति प्रदान करके, अपना ईमेल पता दर्ज करा सकते हैं। बैंक खाते के विवरण को अपडेट करने के लिए अतिरिक्त विवरण जैसे कि बैंक का नाम एवं शाखा, बैंक खाता प्रकार, बैंक खाता संख्या, 9 अंकों का एमआईसीआर कोड, 11 अंकों का आईएफएससी कोड और रद्द बैंक की स्कैन प्रति की आवश्यकता होगी।

सदस्य एजीएम सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त करने के समित उद्देश्य के लिए अपने ई-मेल पते को कैफिन द्वारा दिए गए लिंक <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx> पर भी पंजीकृत करा सकते हैं।

कृते पीसी ज्वैलर लिमिटेड
हस्ताक्षरित/-
(विजय पर्वार)
कंपनी सचिव

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 26 अगस्त, 2022